



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 94]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 20, 2012/पौष 30, 1933

No. 94]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 20, 2012/PAUSA 30, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2012

का आ. 104(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 200(अ), तारीख 1 फरवरी, 2011, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य के चेन्नई जिले में अरुम्बक्कम और कोयम्बेडू गावां में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के 13/800 कि.मी. से 15/340 कि.मी. तक के भूखण्ड पर चेन्नई पत्तन से मदुरावोयल तक नई चार लेन की उत्थित सड़क के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुक्षण, प्रबध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 19 फरवरी, 2011 को "दि न्यू इंडियन एक्सप्रेस" और 20 फरवरी, 2011 को "दिना थाथी" में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तिया का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

## अनुसूची

तमिलनाडु राज्य में (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4) के 13/800 कि. मी. से 15/340 कि. मी. तक चेन्नई पत्तन से गदुरवायल तक नई चार लेन की उचित सड़क के संबंध में अर्जन की जाने वाली सच्यता सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	ब्लाक संख्या	सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	हितबद्ध व्यक्ति के नाम
1	2	3	4	5		6			8	9
1	चेन्नई	एगमोर - नंगमबक्कम	(1)अरुम्बक्कम	4	2/पी	2/2	निजी	रोयत मनाई	1794	स्टेट हाउसिंग बोर्ड
			(2)कोयम्बेडू	32	19/1	19/3	निजी	रोयत मनाई	1155.0	1. 1277 नोकी आईस कोल्ड स्टोर्स 2. 49 मुनुसामी नाईकर
				32	25/1	25/1	निजी	रोयत मनाई	42.5	50. देवासिगामनी
				32	26 पी	26/2	निजी	रोयत मनाई	184.0	50. देवासिगामनी
				32	27 पी	27/2	निजी	रोयत मनाई	290.0	27. जी करुणानिधि छोजान
				32	28 पी	28/1	निजी	रोयत मनाई	15.0	50. देवासिगामनी
				32	29/1	29/1	निजी	रोयत मनाई	25.5	रुकमणी पत्नी इलुमलाई
				32	32/1	32/5	निजी	रोयत मनाई	27.0	50. देवासिगामनी
				32	33/1	33/5	निजी	रोयत मनाई	24.0	1. 50. देवासिगामनी 2. 120 दुर्गासागी नाईकर पुत्र बिनक्कुजानधाय नाईकर
								रोयत मनाई		
				32	34/1	34/1	निजी	रोयत मनाई	34.0	216 गोविन्दासामी पुत्र मुनुसामी नाईकर
				37	4/1 पी	4/6	निजी	रोयत मनाई	486.0	कुट्टी फलुसा डोर और फर्नीचर और कम्पनी प्रा. लि
				38	2/1 पी	2/7	निजी	रोयत मनाई	220.0	चेन्नई मेट्रोपालिटियन डिवलपमेंट एथोरटी
41	2/2 पी	2/11	निजी	रोयत मनाई	38.0	डॉ. के सेन्थीलनाथन				

- [फा. स. भारांप्रा-एचक्यू/11013/2010-एलए/नोटिफ/पीआईयू-चेन्नई]

माया प्रकाश, उप-सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th January, 2012

**S.O. 104(E).**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 200 (E), dated the 1<sup>st</sup> February, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building, (widening/ four- laning, etc.), maintenance, management and operation, of new four lane Elevated Road from Chennai Port to Maduravoyal of National Highways-4 on the stretch of land from Km 13/800 to Km 15/340 in Arumbakkam and Koyambedu villages in Chennai District in the State of Tamil Nadu;

And whereas the substance of the said notification has been published in "The New Indian Express", dated the 19<sup>th</sup> February, 2011, and in "Dina Thanthi", dated the 20<sup>th</sup> February, 2011, under sub-section (3) of Section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub section (1)\* of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose,

And further, in pursuance of sub-section (2) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this Notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

## SCHEDULE

**Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from km 13/800 to km 15/340 in respect of new Four Lane Elevated Road from Chennai Port to Maduravoyal (National Highways No. 4) in the State of Tamil Nadu**

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Block number	Town Survey number		Type of land	Nature of land	Area (in square meters)	Name of the person interested
					Before sub-division	After sub-division				
1	2	3	4	5			6	7	8	9
1	Chennai	Egmore - Nungambakkam	(1) Arumbakkam	4	2/P	2/2	Private	Ryot Manai	1794	State Housing Board
			(2) Koyambedu	32	19/1	19/3	Private	Ryot Manai	1155.0	1)1277. Noki Ice Cold Stores 2) 49. Munusami Naicker
				32	25/1	25/1	Private	Ryot Manai	42.5	50. Deivasigamani
				32	26 P	26/2	Private	Ryot Manai	184.0	50. Deivasigamani
				32	27 P	27/2	Private	Ryot Manai	290.0	27. G. Karunanidhi Chozhan
				32	28 P	28/1	Private	Ryot Manai	15.0	50. Deivasigamani
				32	29/1	29/1	Private	Ryot Manai	25.5	Rukmani W/o. Elumalai
				32	32/1	32/5	Private	Ryot Manai	27 0	50. Deivasigamani
				32	33/1	33/5	Private	Ryot Manai	24.0	1) 50. Deivasigamani 2) 120. Duraisami Naicker S/o. Chinnakkuzhandhai Naicker
				32	34/1	34/1	Private	Ryot Manai	34.0	216. Govindasami S/o. Munusami Naicker
				37	4/1 P	4/6	Private	Ryot Manai	486.0	Kutty Flush Doors and Furniture and Company pvt. Ltd.,
				38	2/1 P	2/7	Private	Ryot Manai	220.0	Chennai Metropolitan Development Authority
				41	2/2 P	2/11	Private	Ryot Manai	38.0	Dr. K. Senthilnathan

[F No NHA-HQ/11013/2010-LA/Notif/PIU-Chennai]

MAYA PRAKASH, Dy Secy.